

## Report

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नयी दिल्ली (National Institute of Social Defence, New Delhi) द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के सहयोग से **“To prevent alcohol and drug abuse in the family, schools/college and community”** नामक विषय पर दिनांक 29/01/2019 को कार्यशाला का आयोजन कोटाबाग ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री एस एस रौतेला, सदस्य बीडीसी कोटाबाग श्री जोधा सिंह के अध्यक्ष पूरण चन्द्र बुडलाकोटि, ग्राम प्रधान कोटाबाग श्री नवीन छिमवाल, मुख्य वक्ता डॉ निधी और उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा विभाग के समन्वयक डॉ सिद्धार्थ पोखरियाल ने किया।



श्री एस.एस.रौतेला ने अपने संबोधन कहा कि युवा पीढ़ी को मद्यपान एवं नशे के चुंगल से बचने की सलाह दी। मद्यपान एवं नशा शरीर के अंगों का नुकसान करता है साथ ही आदमी के आत्म सम्मान का भी नुकसान होता है। मद्यपान एवं नशे के विरोध और समाज को जागरूक करने में लगानी चाहिये। प्रतिभागियों से नशे की जगह किताबों के ज्ञान में अपना समय व्यतीत करने का आवाहन किया। बीडीसी सदस्य कोटाबाग श्री जोधा सिंह ने अपने उद्घोषण में आज वर्तमान समय में युवा उपेक्षा का शिकार होकर धीरे-धीरे नशे की गिरफ्त में जा रहा है। नशे में लिप्त व्यक्ति को समाज

और परिवार के लिए दुखदायी बताया और वर्तमान पीढ़ी को शराब व नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया | ग्राम प्रधान कोटाबाग श्री नवीन छिमवाल ने वर्तमान पीढ़ी को शराब व नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया | कार्यशाला संयोजक डॉ० सिद्धार्थ पोखरियाल द्वारा अपने उद्बोधन में मद्यपान एवं नशा के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया इसके अतिरिक्त वर्तमान में नशे के नए नए प्रकारों के बारे में और उनसे बचाव सम्बन्धी जानकारी दी और शराब बंदी पर हुए विभिन्न आन्दोलनों की जानकारी दी |



कार्यशाला में विशेषज्ञ डॉ निधि द्वारा स्कूली बच्चों को नशे के प्रभावों व उनसे बचाव के बारे में बताया गया और साथ ही नशा मुक्ति केन्द्रों के क्रियाकलापों का ज्ञान दिया गया | अभिभावक रमेश ने माता पिता का अपने युवा बच्चों के साथ अधिकाधिक समय व्यतीत करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे बच्चे नशे से दूर रहें | शिक्षक प्रतिनिधि वी के सिंह द्वारा नशे कि जगह किताबों के ज्ञान में अपना समय व्यतीत करने का आह्वान किया



|समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण | डॉ॰विवेक पाण्डेय द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया |कार्यशाला में कोटाबाग क्षेत्र के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के समस्त छात्र छात्राये व शिक्षक उपस्थित रहे



# नशा परिवार के लिए भी घातक

हल्द्वानी : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चला रहा है। मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में कार्यशाला आयोजित हुई।

यूओयू व राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान नई दिल्ली की ओर से आयोजित कार्यशाला में प्रधानाचार्य एसएस रौतेला ने युवा पीढ़ी को नशे के चुंगल से बचने की सलाह दी। बीडीसी सदस्य कोटाबाग जोधा सिंह ने कहा कि नशा खुद के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी घातक है। इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। संचालन विशिष्ट शिक्षा विभाग के डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल ने किया। इस दौरान कोटाबाग के ग्राम प्रधान नवीन छिमवाल, अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पूरन चंद्र बुढलाकोटी आदि शामिल रहे। जासं

# नशे के खिलाफ जागरूक किया

हल्द्वानी। उत्तराखण्ड मुक्त विवि हल्द्वानी एवं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान नयी दिल्ली की ओर से कोटाबाग के राइंका कोटाबाग में एक दिवसीय कार्यशाला हुई। इस दौरान छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया। प्रधानाचार्य एसएस रैतेला ने युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बचने की सलाह दी। बीडीसी सदस्य कोटाबाग जोधा सिंह ने नशे में लिप्त व्यक्ति को समाज और परिवार के लिए दुखदायी बताया। छात्र धीरज ने नशा विरोधी कार्यशाला को कोटाबाग क्षेत्र के लिए लाभकारी बताया। यहां ग्राम प्रधान कोटाबाग नवीन छिम्वाल, कार्यशाला संयोजक डॉ. सिद्धार्थ पोखरियाल, पीटीए अध्यक्ष पूरन चंद्र, वीके सिंह, डॉ. विवेक पांडेय आदि रहे।